



# झारखण्ड गजट

## साधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या - 41

राँची, बुधवार

11 दिसम्बर, 2019 (ई०)

#### विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

**भाग 1**—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 492- 511

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

**भाग 1-क**—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

**भाग 1-ख**—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

**भाग 1-ग**—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

**भाग-2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

**भाग-2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

**भाग 3**—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

**भाग-4**—झारखण्ड अधिनियम

**भाग-5**—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

**भाग-7**—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

**भाग-8**— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

**भाग-9**— विज्ञापन ---

**भाग-9-क**—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

**भाग-9-ख**—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

**भाग 1****नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

-----

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

-----

**अधिसूचना****11, सितम्बर, 2019 ई०।**

**संख्या-13/डी०-1002/2007- 4859 /सी०**,-- गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-I-21017/01/2019-IPS-III, दिनांक 14.08.2019 के आलोक में श्री आशीष बत्रा, भा०पु०से० (1997), पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के पद पर योगदान देने हेतु वर्तमान धारित पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**शैलेश कुमार सिन्हा,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

-----

**अधिसूचना****26 नवम्बर, 2019 ई०।**

**संख्या-12/पी०-8005/2014 (खण्ड)- 6358 --** श्री अनिल कुमार सिंह, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए अगले नियमित पदस्थापन तक पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में योगदान देने का निदेश दिया जाता है।

**संख्या-12/पी०-8005/2014 (खण्ड)- 6359 --** श्री भूपेन्द्र प्रसाद राउत, पुलिस उपाधीक्षक, जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. उक्त पर भारत निर्वाचन आयोग का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**शैलेश कुमार सिन्हा,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

-----  
अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2019 ई०।

**संख्या-12/पी०5-1004/2019- 5780** -- श्रीमती सरोजनी लकड़ा, वरीय पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को वरीय पुलिस उपाधीक्षक कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान Level-11/अपुनरीक्षित वेतनमान- 15600-39100, ग्रेड वेतन रु० 6600/-) से अपर पुलिस अधीक्षक कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- Level-12 /अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-III-15600-39100, ग्रेड वेतन रु० 7600/-) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**संख्या-12/पी०5-1004/2019- 5781** -- श्रीमती एमेलडा एक्का, वरीय पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को वरीय पुलिस उपाधीक्षक कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- Level-11/अपुनरीक्षित वेतनमान- 15600-39100, ग्रेड वेतन रु० 6600/-) से अपर पुलिस अधीक्षक कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- Level-12/अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-III-15600-39100, ग्रेड वेतन रु० 7600/-) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. उक्त प्रोन्नति का आर्थिक लाभ अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।
3. उपरोक्त अधिसूचना माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या-3792/2016 के आदेश से प्रभावित होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,  
सरकार के अवर सचिव।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

### अधिसूचना

01 नवम्बर, 2019 ई०।

**संख्या-11/स्था.राज.-03/2019- 5955--** राज्य कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक- 2981/वि., दिनांक-01.09.2009 एवं 1779, दिनांक- 21.05.2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक-19.09.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नांकित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारियों/प्रोबेशन पदाधिकारियों को उनके नियुक्ति/योगदान की तिथि से लगातार 10/20/30 वर्षों की सेवा पूरे किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख तालिका के अनुसार द्वितीय/तृतीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम  | वर्तमान वेतनमान   | देय एम.ए.सी.पी. (तिथि सहित)                | देय वेतनमान   |
|----------|--|---|--|---|
| 1.       | सुश्री ओलगा वाणी मुंजनी, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी (सेवानिवृत्त) | 15,600-39,100/-<br>ग्रेड पे- 6,600/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-11) | तृतीय एम.ए.सी.पी.<br>देय तिथि-12.10.2013   | 15,600-39,100/-<br>ग्रेड पे- 7,600/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-12) |
| 2.       | श्रीमती अमिता एक्का, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी (सेवानिवृत्त)     | 15,600-39,100/-<br>ग्रेड पे- 6,600/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-11) | तृतीय एम.ए.सी.पी.<br>देय तिथि-31.07.2016   | 15,600-39,100/-<br>ग्रेड पे- 7,600/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-12) |
| 3.       | श्री जीतेन्द्र नारायण, प्रोबेशन पदाधिकारी, राँची।                | 9,300-34,800/-<br>ग्रेड पे- 5,400/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-9)   | द्वितीय एम.ए.सी.पी.<br>देय तिथि-01.09.2017 | 15,600-39,100/-<br>ग्रेड पे- 5,400/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-10) |
| 4.       | श्री रविन्द्र कुमार ठाकुर, प्रोबेशन पदाधिकारी, कोडरमा।           | 9,300-34,800/-<br>ग्रेड पे- 5,400/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-9)   | द्वितीय एम.ए.सी.पी.<br>देय तिथि-01.09.2017 | 15,600-39,100/-<br>ग्रेड पे- 5,400/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-10) |

2) उपर्युक्त लाभों की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् हैं:-

- (क) ये वृत्तीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक हैं।
- (ख) वृत्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन होने के उपरांत ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा।

- (ग) प्रदत्त वृत्तीय उन्नयन के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा इन्हें भुगतान की गयी राशि की एकमुश्त वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।
- 3) इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमणों के दौरान संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण प्रशासी विभाग द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम- 22 (i) (ए) (i) के प्रावधानों तथा इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन होगा।
- 4) यह उत्क्रमण व्यक्तिगत है, जिसका उनकी पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। संवर्ग में कनीय कर्मी को एम.ए.सी.पी. योजना के तहत उच्चतर वेतनमान/ ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा।
- 5) उपरोक्त वृत्तीय उन्नयन पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सुबोध कुमार,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----  
**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**  
-----

**शुद्धि पत्र**  
**18 नवम्बर, 2019 ई०।**

**संख्या-11/स्था.राज.-03/2019- 6208** -- विभागीय अधिसूचना सं0-5955, दिनांक- 01.11.2019 द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन चार प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारियों/प्रोबेशन पदाधिकारियों को द्वितीय/तृतीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अधिसूचना में अंकित विवरणी की कंडिका-2 में “श्रीमती अमिता एक्का, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी (सेवानिवृत्त)” के स्थान पर “श्रीमती अमिता एक्का, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, राँची” पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा इसके शेष अंश यथावत् रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सुबोध कुमार,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

### अधिसूचना

01 नवम्बर, 2019 ई०।

**संख्या-11/स्था.राज.-03/2019- 5957** -- राज्य कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक- 2981/वि., दिनांक-01.09.2009 एवं 1779, दिनांक- 21.05.2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक-19.09.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नियुक्ति/योगदान की तिथि से लगातार 10/20/30 वर्षों की सेवा पूरे किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख तालिका के अनुसार द्वितीय/तृतीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम   | वर्तमान वेतनमान   | देय एम.ए.सी.पी. (तिथि सहित)                | देय वेतनमान   |
|----------|---|---|--|---|
| 5.       | श्री दीपक कुमार विद्यार्थी, सहायक कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची। (सेवानिवृत्त) | 15,600-39,100/-<br>ग्रेड पे- 7,600/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-12) | तृतीय एम.ए.सी.पी.<br>देय तिथि- 29.12.2018  | 37,400-67,000/-<br>ग्रेड पे- 8,700/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-13) |
| 6.       | श्रीमती रूपम प्रसाद, प्राचार्य, कारा प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग। (सेवानिवृत्त)   | 15,600-39,100/-<br>ग्रेड पे- 7,600/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-12) | तृतीय एम.ए.सी.पी.<br>देय तिथि- 08.08.2016  | 37,400-67,000/-<br>ग्रेड पे- 8,700/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-13) |
| 7.       | श्री भागीरथ कार्जी, अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, दुमका।                               | 15,600-39,100/-<br>ग्रेड पे- 6,600/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-11) | द्वितीय एम.ए.सी.पी.<br>देय तिथि-20.11.2015 | 15,600-39,100/-<br>ग्रेड पे- 7,600/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-12) |
| 8.       | श्री किशोर लकड़ा, अधीक्षक, मंडल कारा, गुमला। (सेवानिवृत्त)                        | 9,300-34,800/-<br>ग्रेड पे- 5,400/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-9)   | द्वितीय एम.ए.सी.पी.<br>देय तिथि-13.12.2013 | 15,600-39,100/-<br>ग्रेड पे- 5,400/-<br>(पुनरीक्षित वेतनमान में Level-10) |

2) उपर्युक्त लाभों की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् हैं:-

- (क) ये वृत्तीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक हैं।
- (ख) वृत्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन होने के उपरांत ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा।
- (ग) प्रदत्त वृत्तीय उन्नयन के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा इन्हें भुगतान की गयी राशि की एकमुश्त वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

3) इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमणों के दौरान संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण प्रशासी विभाग द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम- 22 (i) (ए) (i) के प्रावधानों तथा इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन होगा।

4) यह उत्क्रमण व्यक्तिगत है, जिसका उनकी पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। संवर्ग में कनीय कर्मी को एम.ए.सी.पी. योजना के तहत उच्चतर वेतनमान/ ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा।

5) उपरोक्त वृत्तीय उन्नयन पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सुबोध कुमार,**

सरकार के अवर सचिव।

-----  
**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**  
-----

**अधिसूचना**

**10 दिसम्बर, 2019 ई०।**

**संख्या-06/अभि०-22/01/2010- 6303** -- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-6735, दिनांक-24.11.2017 के द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निषेध) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति हेतु गठित प्राधिकार समिति में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि के रूप में **श्री बाल किशुन मुण्डा**, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को नामित किया गया है।

2. श्री मुण्डा के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से स्थानान्तरण के पश्चात् इनके स्थान पर **श्री सतीश कुमार**, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को प्राधिकार समिति में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है।

3. **श्री सतीश कुमार**, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची अगले आदेश तक प्राधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

4. अधिसूचना संख्या-6735, दिनांक-24.11.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं इसके शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**तदाशा मिश्र,**

सरकार के विशेष सचिव।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

-----

अधिसूचना

5 दिसम्बर, 2019 ई०।

**संख्या-14/ए०-1057/2013- 6550** -- श्री शत्रुघ्न रजक, रा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, द्वितीय, गिरिडीह सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, सी०सी०आर०, बोकारो के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या-209/2012, दिनांक-06.09.2012 धारा-467/468/471/420/34 भा०द०वि० का त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षण टिप्पणी समर्पित करने तथा अभियुक्त को लाभ पहुँचाने का प्रयास करने संबंधी आरोप के लिए संकल्प संख्या-6856, दिनांक-05.12.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

विभागीय कार्यवाही के क्रम में जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री रजक के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया।

जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख के सम्यक समीक्षोपरान्त, श्री शत्रुघ्न रजक, रा०पु०से० के दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है एवं संकल्प संख्या-6856, दिनांक-05.12.2017 के माध्यम से संचालित विभागीय कार्यवाही का एतद् द्वारा निस्तार किया जाता है।

उपयुक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पूनम प्रभा पूर्ति,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

-----

अधिसूचना

18 नवम्बर, 2019 ई०।

**संख्या-13/पी०1-8001/2010- 6210 /सी०,**-- श्री कमल नयन चौबे, भा०पु०से० (1986), महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त विशेष कार्य पदाधिकारी, पुलिस आधुनिकीकरण, कैम्प नई दिल्ली के प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**शैलेश कुमार सिन्हा,**

सरकार के अवर सचिव।

-----



**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

-----  
अधिसूचना

22 नवम्बर, 2019 ई०।

**संख्या-14/ए०-12/2016- 6325** -- अधिसूचना संख्या-3991, दिनांक 18.07.2016 के द्वारा श्री मजरूल होदा, रा०पु०से० को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया था। W.P. (S.) No.-1900/2019 मजरूल होदा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में पारित आदेश के आलोक में श्री होदा को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

संकल्प संख्या-5681, दिनांक 18.10.2017 एवं इसी क्रम में निर्गत संकल्प संख्या-6855, दिनांक 05.12.2017 के माध्यम से संचालित विभागीय कार्यवाही पर अंतिम निर्णय, श्री होदा के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामला के फलाफल के आधार पर लिया जाएगा।

उपर्युक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पूनम प्रभा पूर्ति,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----  
**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

-----  
अधिसूचना

28 नवम्बर, 2019 ई०।

**संख्या-06/अभि०(अ०लो०अभि०)-06/2019- 6125** -- महालेखाकर (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची कार्यालय के पत्रांक-5-APP-V-B-781, दिनांक-17.09.2019 द्वारा श्री दिनेश कुमार ओझा, अपर लोक अभियोजक, दुमका के पक्ष में निर्गत विवरणी के आधार पर इनके द्वारा अपने पुत्री के विवाह हेतु दिनांक-16.11.2019 से 30.11.2019 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति पूर्ण वेतन पर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के आलोक में दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सतीश कुमार,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

---

**अधिसूचना**

**पत्र संख्या-13/आई.पी.एस.-119/2019- 6363--**

प्रेषक,

**अनिल कुमार सिंह,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

**प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.),**  
झारखण्ड, राँची।

**राँची, दिनांक- 26 नवम्बर, 2019 ई.।**

**विषय:- श्री सुनील भास्कर, भा.पु.से. (2007) के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी प्रभार रहित अवधि (दिनांक-30.06.2019 से 30.07.2019 तक) की सेवा विनियमित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-6220, दिनांक 19.11.2019 के संबंध में कहना है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका-2 (i) में अंकित "(i) दिनांक-30.06.2019 से 30.07.2019 तक पदग्रहण काल" को निम्नवत पढ़ा जाय:-

"(i) दिनांक-30.06.2019 से 03.07.2019 तक पदग्रहण काल"

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के अन्य तथ्य यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन,

**अनिल कुमार सिंह,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

---

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

-----

**अधिसूचना**

**13 नवम्बर, 2019 ई०।**

**संख्या-13/एल.-110/2017- 6123** -- श्री मनोज कुमार सिंह, भा.पु.से., पुलिस उप-महानिरीक्षक, जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-14.11.2019 से 23.11.2019 तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्री सिंह, भा.पु.से. को कोटि वेतन देय होगा।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-5000, दिनांक-19.09.2019 को रद्द किया जाता है, जिसके द्वारा श्री सिंह, भा.पु.से. को पूर्व में दिनांक-18.10.2019 से 26.10.2019 तक 09 (नौ) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**शैलेश कुमार सिन्हा,**

सरकार के अवर सचिव।

-----

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

-----

**अधिसूचना**

**14 नवम्बर, 2019 ई०।**

**संख्या-14/ए.-22/2019- 6155** -- अधिसूचना संख्या-5541, दिनांक-16.10.2019 एवं पुलिस मुख्यालय के प्रतिवेदन (पत्रांक-1437, दिनांक-21.10.2019) के क्रम में श्री सुरेश प्रसाद पासवान, रा.पु.से. तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (प्रशासन) पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय, संथाल परगना क्षेत्र, दुमका सम्प्रति निलंबित के निलंबन अवधि में मुख्यालय-महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री पासवान को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 एवं 99 तथा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण-नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 10 के अधीन अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. उपर्युक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पूनम प्रभा पूर्ति,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

-----

---

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

-----  
अधिसूचना

21 नवम्बर, 2019 ई०।

**संख्या-05/सी०सी०ए०/01/90/2017- 5967** -- उपायुक्त-सह-जिला-दण्डाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-1371/गो०, दिनांक 12-11-2019 द्वारा जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत शक्ति प्रत्यायोजन का अनुरोध किया गया है। इसमें झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि सरायकेला-खरसावाँ जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा-12 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के सरायकेला-खरसावाँ जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा-12 (2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**धनेश कुमार,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2019

संख्या-4/नि० स०-12-11/2018-27165 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव (पंचम बैच, गृह जिला- धनबाद) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

| Sl. No. | Employee Name<br>G.P.F. No.                    | Current Department      | Current Office<br>Current Designation                                | Joining Date in Service | Date of Service Confirmation |
|---------|--|-------------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| 1       | 2  | 3                       | 4  | 5                       | 6                            |
| 1       | BRAJESH KUMAR<br>SRIVASTAVA-<br>(110077710593) | DC OFFICE<br>HAZARIBAGH | <u>BARHI</u><br><u>CIRCLE</u><br><u>HAZARIBAGH</u><br>Circle Officer | 15/06/2016              | 15/06/2018                   |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,  
सरकार के उप सचिव  
जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2019

संख्या-03/नि०सं०-09-16/2014 का. 9687-- श्री चन्द्र किशोर उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 590/03), विशेष सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 01.06.2012 से दिनांक 30.06.2012 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,  
सरकार के उप सचिव।

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2019

संख्या-4/नि०सं०-12-88/2014 का. 9692-- श्रीमती किरण सोरेंग, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-गुमला), अंचल अधिकारी, दुलमी, रामगढ़ को निम्नवत् अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) दि० 01.04.2018 से 27.09.2018 तक - मातृत्व अवकाश के रूप में वित्त विभाग के संकल्प सं०- 551 दिनांक 01.03.2007 तथा 907 दिनांक 01.07.2010 के तहत।
- (ii) दि० 28.09.2018 से 29.11.2018 तक - उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,  
सरकार के उप सचिव।

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

04 दिसम्बर, 2019

संख्या-1/विविध-844/2016 का०- 9702-- श्री सुशांत गौरव, भा.प्र.से. (झा:2014), निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18(B) के तहत दिनांक 13.12.2019 से 27.12.2019 तक कुल 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्री गौरव के अवकाश अवधि में निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड का प्रभार श्री आदित्य कुमार आनंद, भा.प्र.से. (झा:2013), संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को दिया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,  
सरकार के अवर सचिव।

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**

-----  
अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2019

संख्या-1/विविध-840/09 (खंड) का०- 9669-- श्री अविनाश कुमार, भा.प्र.से. (झा:1993), प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 30.12.2019 से 03.01.2020 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 28.12.2019 से 29.12.2019 के शनिवारीय/रविवारीय अवकाश का उपभोग करने एवं उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,  
सरकार के अवर सचिव।

-----  
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**

-----  
अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2019

संख्या-1/विविध-8016/05 (खण्ड) का०- 9673-- श्रीमती पूजा सिंघल, भा.प्र.से. (झा:2000), सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-13018/1/2010, दिनांक-07.09.2010 के आलोक में दिनांक 03.12.2019 से 10.12.2019 तक कुल 08 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,  
सरकार के अवर सचिव।

-----

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2019

**संख्या-1/विविध-824/2012 का०- 9667--** श्री एल० खियांगते, भा.प्र.से. (झा:88), महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत चिकित्सीय कारणों से हेतु दिनांक 02.12.2019 से 06.12.2019 तक कुल 05 दिनों के रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 30.11.2019 से 01.12.2019 तक के सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश का उपभोग करने तथा दिनांक 29.11.2019 के अपराहन से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,  
सरकार के अवर सचिव।

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2019

**संख्या-1/विविध-815/2017 का०- 9668--** श्री मनोज कुमार झा, भा.प्र.से. (झा:2002), प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 05.12.2019 से 13.12.2019 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 14.12.2019 से 15.12.2019 के शनिवारीय/रविवारीय अवकाश का उपभोग करने एवं उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,  
सरकार के अवर सचिव।



**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**

-----

**अधिसूचना**

**05 दिसम्बर, 2019**

**संख्या-3/नि०सं०-09-22/2014 का.- 9742--** श्रीमती नयनतारा केरकेट्टा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-777/03), निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर का दिनांक 18.08.2019 से 06.09.2019 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अनिल कुमार सिंह,**  
सरकार के उप सचिव।

-----

---

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAJESH KUMAR पिता RAJENDRA KUMAR SABHLOK शपथ पत्र सं० 79, दिनांक 4 नवम्बर, 2019 के अनुसार RAJESH SABLOK के नाम से जाना जाऊँगा।

RAJESH KUMAR एवं RAJESH SABLOK दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF – E-129, A BLOCK, SONARI, EAST JAMSHEDPUR,  
DIST.- EAST SINGHBHOM,  
STATE-(JHARKHAND)  
PIN- 831011.

-----  
प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KALI CHARAN MAHATO पिता PARSHU RAM MAHTO शपथ पत्र सं० 117, दिनांक 10 अप्रैल, 2019 के अनुसार KALI CHARAN MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा।

KALI CHARAN MAHATO एवं KALI CHARAN MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF – SECTOR-3/D, Qr. No-0048, BOKARO STEEL CITY,  
DIST.-BOKARO, JHARKHAND,  
PIN- 827003

-----  
प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PEMMARAJU JUPITER पिता PEMMARAJU RAMA KOTESWARA RAO शपथ पत्र सं० 5370, दिनांक 29 मई, 2019 के अनुसार PEMMARAJU KSHITIJ के नाम से जाना जाऊँगा।

PEMMARAJU JUPITER एवं PEMMARAJU KSHITIJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF – SECTOR-4/C, Qr. No-2032,  
P.O.& P.S.- SECTOR-4, BOKARO STEEL CITY,  
DIST.-BOKARO, JHARKHAND  
PIN- 827004

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

में BIRENDRA KUMAR TIWARY पिता BALESHWAR TIWARY शपथ पत्र सं० 1006, दिनांक 29 जून, 2019 के अनुसार BIRENDRA KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा ।

BIRENDRA KUMAR TIWARY एवं BIRENDRA KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF – VILLAGE- SHANTI NAGAR CHANO 1,  
P.O.- COLLEGE MOD,  
P.S.- KORRA,  
DIST.-HAZARIBAG, JHARKHAND

-----  
प्रकाशनार्थ सूचना

में KUTUBUDDIN ANSARI पिता ABDUL BASHAR ANSARI शपथ पत्र सं० 444 A, दिनांक 5 नवम्बर, 2019 के अनुसार MD KUTUBUDDIN ANSARI के नाम से जाना जाऊँगा ।

KUTUBUDDIN ANSARI एवं MD KUTUBUDDIN ANSARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF – HOUSE No.-92, BHARRA BASTI,  
P.O. & P.S.- CHAS,  
DIST.-BOKARO, JHARKHAND

-----  
प्रकाशनार्थ सूचना

में NAINA KISHOR DEVI, NAYNA KESHAR DEVI, NAINA KISHORE DEVI पति LATE SHANKAR YADAV शपथ पत्र सं० 3373, दिनांक 23 नवम्बर, 2019 के अनुसार NAINA KESHAR DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

NAINA KISHOR DEVI, NAYNA KESHAR DEVI, NAINA KISHORE DEVI एवं NAINA KESHAR DEVI चारों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF -- POCHRA BANGLA  
P.O.- BARKAKANA  
P.S.- PATRATU,  
DIST- RAMGARH,  
STATE—JHARKHAND,

---

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MANISHA KUMARI पिता MANI BHUSHAN SINGH शपथ पत्र सं० 8, दिनांक 16 नवम्बर, 2019 के अनुसार KUMARI MANISHA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी ।

MANISHA KUMARI एवं KUMARI MANISHA SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF --

14/668, RAMADHIN BAGAN,  
TELCO JAMSHEDPUR LUYABASA,  
EAST SINGHBHUM,  
STATE—JHARKHAND,  
PIN- 831008

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PUJA पिता UDAY SHANKAR JHA शपथ पत्र सं० 11723, दिनांक 28 अगस्त, 2019 के अनुसार PUJA JHA के नाम से जानी जाऊँगी ।

PUJA एवं PUJA JHA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF --

CENTRAL SITE, 2 No KUNWA,  
P.O.- GHATOTAND,  
P.S.- MANDU, BARUGHUTU,  
DIST- RAMGARH  
STATE—JHARKHAND,  
PIN- 825314.

-----